



### 1-गैर इरादतन हत्या के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स-

अवगत कराना है कि दिनांक 07-10-2022 को वादी श्री भास्कर वर्मा पुत्र स्व० श्री दिनेश कुमार वर्मा निवासी 164/3ए सिविल लाईन्स थाना कोतवाली, बरेली ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट कर घायल करने जिससे वादी के पिता की ईलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु०अ०सं०-876/2022 धारा-304 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 07-11-2022 को व०उ०नि० श्री बृजेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स ने मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-जाह्नवी प्रसाद शर्मा पुत्र हिम निधि शर्मा 2- रेखा देवी पत्नी जाह्नवी प्रसाद शर्मा निवासीगण श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर गीता वाटिका गोरखपुर थाना शाहपुर जिला गोरखपुर हाल निवासीगण रामगंगा विहार फेज-02 थाना सिविल लाईन्स, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

### 2-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 22-10-2022 को वादिनी निवासी थाना मूढापांडे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व फोटो वायरल करने की धमकी देने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०-171/2022 धारा-376/509 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 07-11-2022 को प्र०नि० श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त इमरान पुत्र निसार निवासी पायती कला थाना डिडौली, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

### 3- गोवंशीय पशु की हत्या करने के 03 आरोपी गिरफ्तार, थाना बिलारी-

अवगत कराना है कि दिनांक 12-09-2022 को वादी प्रेम शंकर सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह निवासी ग्राम करावर थाना बिलारी, मुरादाबाद ने अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा गोवंशीय पशु की हत्या कर अवशेष छोड़ देने के संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-437/2022 धारा 3/8/5 सी०एस० एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 07-11-2022 को उ०नि० श्री सौरभ कुमार पोसवाल थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-जावेद पुत्र साबिर 2-जाकिर पुत्र साबिर निवासीगण ग्राम थावला थाना बिलारी, मुरादाबाद 3-पिंटू पुत्र बहादुर निवासी ग्राम बनियाठेर थाना बिलारी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।